



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 35 राँची, सोमवार

28 पौष, 1937 (श०)

18 जनवरी, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग ।

अधिसूचना

11 जनवरी, 2016

संख्या-8/न.वि./गठन/105/2015-...167(अनु०)--झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (1) एवं (2) तथा धारा-4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा हजारीबाग जिलान्तर्गत हजारीबाग नगर परिषद् (वर्ग-'क') के मूलरूप में उसके आस-पास के 19 राजस्व ग्रामों, यथा (i) ओकनी-II (ii) मण्डई कंला (iii) मण्डई (iv) नवडीहा (v) कोल घट्टी-I (vi) कोल घट्टी-II (vii) जबरा (viii) लाखे (ix) हुरहुरू (अंश) (x) कस्तुरीखाप (xi) कदमा-II (xii) रेवाली (रेलवे स्टेशन अंश) (xiii) कुद-II (xiv) सिरसी-II (xv) डामोडीह की जनसंख्या-54,977 को हजारीबाग नगर परिषद् वर्ग-'क' की जनसंख्या-1,42,489 में जोड़कर समेकित रूप से कुल जनसंख्या-1,97,466 होने के फलस्वरूप हजारीबाग नगर परिषद् वर्ग-'क' को अधिसूचना सं.-2071, दिनांक 11 जून, 2015 (गजट अधिसूचना सं.-433, दिनांक

19 जून, 2015) के द्वारा वृहत्तर शहरी क्षेत्र (नगर निगम) घोषित करने का "प्रारूप आदेश"

प्रकाशित करते हुए 30 दिनों के अन्दर प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-1927/सी., दिनांक 08 अगस्त, 2015 के द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया है कि हजारीबाग नगर निगम के गठन से संबंधित कतिपय आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त हुए। उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा उन आपत्तियों को आधारहीन मानते हुए सम्यक् विचारोपरांत हजारीबाग नगर निगम के गठन हेतु अनुशंसा की गयी है।

अतः सम्यक विचारोपरांत झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (1) एवं (2) तथा धारा 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ हजारीबाग जिलान्तर्गत हजारीबाग नगर परिषद् (वर्ग-'क') के मूल रूप में उसके आस-पास के 19 राजस्व ग्रामों (राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न) को मिलाकर अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से हजारीबाग नगर निगम के रूप में गठित करते हैं ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

परिशिष्ट-Iहजारीबाग नगर निगम का गठन

उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-1927/सी., दिनांक 8 अगस्त, 2015 एवं 266/न.प., दिनांक 31 अगस्त, 2015 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में हजारीबाग नगर परिषद् (वर्ग-'क') में आस-पास के 19 राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्यावार निम्नवत् है:-

क्र.	प्रखण्ड का नाम	क्र.	राजस्व ग्राम	थाना संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	जनसंख्या (2011 के अनुसार)	जनसंख्या घनत्व
1	सदर	i	ओकनी -II	137	1.083	11,106	10254
		ii	मण्डई कंला	131	2.77	10,447	3771
		iii	मण्डई	133	0.015	0	0
		iv	नवडीहा	162	1.21	797	658
		v	कोलघट्टी -I	134	0.86	1,817	2112
		vi	कोलघट्टी -II	132	0.236	4,317	18292
		vii	जबरा	154	2.83	2,419	854
		viii	लाखे	155	0.88	4,412	5013
		ix	चानो-I	148	0.55	487	885
		x	मासीपीढी	120	2.86	1,262	441
		xi	कुद -I	143	0.57	165	289
		xii	सिरसी -I	144	0.56	1,621	2894
		xiii	दुरदुरु (अंश)	147	0.46	1,929	4193
2	कटकमदाग	xiv	कस्तुरीखाप	29	0.30	440	1466
		xv	कदमा-II	128	2.33	7,239	3106
		xvi	रेवाली (रेलवे स्टेशन अंश)	124	1.85	0	0
		xvii	कुद -II	123	3.16	3,400	1075
		xviii	सिरसी&II	121	2.84	1,013	356
		xix	डामोडीह	122	2.23	2,106	944
dy%					27.594	54,977	

हजारीबाग नगर निगम का गठन एक झलक में

क्षेत्र	जनसंख्या	क्षेत्रफल	घनत्व
हजारीबाग नगर परिषद् -वर्ग) 'क')	142489	26.35	5407
सम्मिलित 19 राजस्व ग्रामों यथा:- ओकनी-II, मण्डई कंला, मण्डई, नवडीहा, कोलघट्टी-I, कोलघट्टी-II, जबरा, लाखे, चानो-I, मासीपीढी, कुद-I, सिरसी-I, हुरहुरू (अंश), कस्तुरीखाप, कदमा-II, रेवाली (रेलवे स्टेशन अंश), कुद-II, सिरसी-II एवं डामोडीह की समेकित जनसंख्या	54977	27.594	1992
हजारीबाग नगर निगम की कुल जनसंख्या (एक लाख सन्तानवे हजार चार सौ छियासठ)	197466	53.944	3660

हजारीबाग नगर निगम की चैहद्दी

दिशा	क्षेत्र
पूरब	चानो II, ओरिया, सिंघानी, जगदीशपुर
पश्चिम	मसरातु, सलगांवा, कदमा, गदोखर, पेलावल एवं अलकडिहा
उत्तर	मण्डई खुर्द, मेरावल, सिन्दूर, पुन्दरी
दक्षिण	नदी वो नयाखाप, खपरियांवा

अरुण कुमार सिंह,
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग ।
